

पार्षद संजय नोनिया ने किया स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन

कोलफील्ड मिरर 22 जून (नियामतपुर): आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर वार्ड स्थित सड़क बस स्टैंड जोड़ी रोड से दो नंबर थोड़ा तक नगर निगम के द्वारा 3,96,664 की लागत से 16 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जिसका उद्घाटन 58 नंबर वार्ड के पार्षद संजय नोनिया ने शुक्रवार की शाम पैनल स्विच ऑन कर किया। इस मौके पर वार्ड के सभी बूथों के अध्यक्ष के अलावा सुजीत सिंह, महेश भारती, सत्यनारायण राय, धर्मवीर नोनिया, सुनील भारती विनोद साव, गीतम गुप्ता, संतोष चौहान, श्याम लाल यादव, सैयद शाहिद अनवर, शिवाजी कोईरी, जितेंद्र नोनिया नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता जयश्री बाउड़ी, अंजना बाउड़ी, सोनम खातून, अर्चना मांजी उपस्थित थे।



मौके पर पार्षद संजय नोनिया ने कहा कि इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए वार्ड के नागरिकों की बहुत दिनों से मांग

समय में आने-जाने में नागरिकों को कष्ट होता था। छत्र-छात्राओं को भी शाम में इस रास्ते से आने-जाने में डर लगता था। लेकिन अब यह भय नहीं लगेगा। क्योंकि अब यह रास्ता उजला रहेगा। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान अधिकार होने से दर्शनार्थियों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन उन लोगों को भी अब इस लाइट का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि या एलईडी स्ट्रीट लाइट 3,96,664 की लागत से लगाई गई है।

ईसीएल सोदपुर क्षेत्र के चिनाकुड़ी क्लब में मना योग दिवस

कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ईसीएल मुख्यालय समेत सभी क्षेत्रों में मनाया गया, सोदपुर क्षेत्र में महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा की उपस्थिति में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग का अभ्यास करते योग किया, क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21



जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और आज हम दसवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, योग करने से हम अपनी जीवन चर्चा को ठीक रखने के साथ छोटी बड़ी बीमारियों को भी योग के माध्यम से काबू में करके स्वस्थ रह सकते हैं, क्षेत्र के

चिनाकुड़ी अधिकारी क्लब में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने संबोधन महाप्रबंधक ने अपने फिटनेस का राज बताया और सभी को योग और प्राणायाम करने की सलाह दिया, इस अवसर पर डीजीएम जेपी सिंह, सुरक्षा अधिकारी सुकोमल दास, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक सप्तश्रि गोस्वामी, जगद्वर नेता जयंत मित्रा, पथिक बनर्जी समेत अन्य उपस्थित थे।

ईसीएल सिस्टा की ओर से अपने सदस्य को पदोन्नति मिलने पर सम्मान समारोह किया



कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): कोल इंडिया एसी एसटी संगठन सिस्टा के सोनपुर बाजार परियोजना के अध्यक्ष अजय कुमार दास को विद्युत यांत्रिक

महाप्रबंधक के पद पर प्रमोशन होने पर ईसीएल सिस्टा के अध्यक्ष डॉ एस के चौधरी महासचिव दीनानाथ उपासक की उपस्थिति में हरिपुर डॉ भीमराव अंबेडकर भवन में

विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस टैगोर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मनाया गया



कोलफील्ड मिरर 22 जून (नियामतपुर): शुक्रवार सुबह विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सीतारामपुर स्थित टैगोर इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मनाया गया। उक्त विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में मुख्य रूप से आसनसोल रेल मंडल के एपीओ राजेश कुमार पासवान उपस्थित थे। योग दिवस को सफलतापूर्वक संपन्न करने में आसनसोल वेतफेयर इन्फोटेक सिद्धार्थ चक्रवर्ती का महत्वपूर्ण योगदान था। योग दिवस में सीतारामपुर सीवाईएम देबासिस

जयसवाल, एसएसई पीडब्लू सीतारामपुर राम नंदन प्रसाद, सीतारामपुर आरपीएफ इन्फोटेक लखन मीना, सबइन्फोटेक आरपीएफ मदन पासवान, कमलेश कुमार मेडिकल विभाग सीतारामपुर, एसएसई इलेक्ट्रिकल सीतारामपुर रंजन उपाध्याय के साथ ईआरएमयू, ईआरएमसी, पीआरकेएस युनियन के सदस्य मौजूद थे। विशेष रूप से समाज सेवी संस्था आदिकर्ण फाउंडेशन एनजीओ के चेयरमैन संतोष कुमार वर्मा ने भी रेलवे के साथ योग दिवस पालन

विश्व योग दिवस पर योग शिविर आयोजित की गई

कोलफील्ड मिरर 22 जून (रानीगंज): विश्व योग दिवस पर रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली संस्था की तरफ से योग शिविर आयोजित की गई। भारत की प्रतिष्ठित योग शिक्षिका कृतिका पारीक एवं शिल्पिका शर्मा ने महिलाओं को योग का अभ्यास करवाया।



इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच की महिला विंग देवी शक्ति की तरफ से भी योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिक्षिका कृतिका पारीक एवं शिल्पिका शर्मा ने महिलाओं को योग का अभ्यास करवाया।

संस्था की तरफ से दीपति श्रॉफ, स्वीटी लोहिया ने बताया कि योग शिविर के अवसर पर हम सभी महिलाओं ने रानीगंज के नागरिकों को योग का संदेश दिया। त्रिवेणी देवी भारतीय कॉलेज एनसीसी विभाग की तरफ से प्रमुख डॉक्टर गणेश रजक ने योग शिविर का आयोजन करवाया भारी संख्या में कॉलेज की विद्यार्थी एवं एनसीसी केडेट ने योग में हिस्सा लिया।

महिला विंग देवी शक्ति की तरफ से योग शिविर का आयोजन

कोलफील्ड मिरर 22 जून (रानीगंज): दसवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर त्रिवेणी देवी भारतीय महाविद्यालय के एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. विभाग की ओर से आज (21 जून 2024) योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में ही एनसीसी



ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉ. गणेश रजक ने योग के महत्व पर चर्चा की। एनएसएस ऑफिसर डॉ. आशीष गोरया ने भी योग के संदर्भ में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में रानीगंज शहर के जाने-माने योग प्रशिक्षक शुभम जी उपस्थित थे। उन्होंने कई आसनों एवं प्राणायाम को मंच पर प्रस्तुत किया एवं इससे होने वाले लाभ से भी परिचय कराया। दोनों विभाग के केडेट आज के योग प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

पांडवेश्वर क्षेत्र समेत आसपास में धूमधाम से मना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

वही जटिल रोगों को भी योग के माध्यम से हम स्वस्थ रहकर अपनी दैनिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि दस वर्षों से पूरा विश्व आज के दिन को योग दिवस मनाकर भारत की इस प्राचीन पद्धति से लाभ ले रहा है, वहीं हम सब इसकी अपनाने के बजाय इससे दूर होने की कोशिश में लगे हैं, महाप्रबंधक ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को जन तक पहुंचा कर इससे लाभ उठाने का आवाहन किया, इस अवसर पर क्षेत्र के सभी मजदूर संगठनों के नेता सभी अधिकारी उपस्थित थे, इसी तरह राधा गोविंद मंदिर परिसर में भी पतंजलि संस्था की ओर से भी योग दिवस का पालन किया गया, लोगों ने भी अपने घरों में योगा दिवस को योग करके मनाया, कोलफील्ड मिरर 22 जून (नियामतपुर): आसनसोल लोकसभा के नियामतपुर भाजपा सेंट्रल पार्टी में



कार्यालय में गुरुवार संघा भाजपा कर्मियों ने पश्चिम बंगाल दिवस का पालन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। उक्त दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य, कुल्दी विधानसभा के मंडल उपाध्यक्ष सह समाज सेवी टिकु वर्मा, जिला सदस्य महेश सिंह, कुल्दी मंडल 3.4 के उपाध्यक्ष कवि सिंह, काजल दास, मलय घोष, युवा मोर्चा के सदस्य दिवाकर कुमार के साथ अन्य कर्मियों गण उपस्थित थे।

सैंट क्रिस्टोफर स्कूल में 10वां योग दिवस का पालन

कोलफील्ड मिरर 22 जून (नियामतपुर): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नियामतपुर राधानगर स्थित सैंट क्रिस्टोफर स्कूल में 10वां योग दिवस का पालन किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षण के लिए सैकड़ों बच्चों के बीच मुख्य रूप से उपस्थित रहे योग



गुरु शंकर प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश पंडित, तामसी राय, विवेक राय वही विद्यालय के प्रतिनिधि गोम्स सर प्रधानाध्यापक एस राणा समेत कई शिक्षक गण। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि हम लोग लगभग 20 वर्षों से अपने विद्यालय में योग दिवस का पालन करते आए हैं और लगातार हम लोग प्रत्येक दिन बच्चों में योग को लेकर प्रोत्साहन भरने का कार्य करते हैं साथ ही पिछले वर्ष से हम लोगों ने एक नया अध्याय योग भी बच्चों के अध्याय में जोड़ा है योग के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे हम लोग खुद

को साथ ही अपने मानसिक शक्ति को संतुलित रख सकते हैं इसके लिए योग काफी आवश्यक है। वहीं योग गुरु शंकर प्रसाद ने बताया कि बहुत ही सीमाय की बात है कि लगातार क्रिस्टोफर स्कूल में मुझे प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है जिससे मैं बच्चों के बीच योग के शिक्षा का आदान-प्रदान कर सकूँ और बच्चों के बीच पहुंचकर मुझे काफी उत्साह महसूस होती है बच्चे ही देश का भविष्य है इसलिए योग की शुरुआत बच्चों से करना काफी जरूरी है आज तकबनाने हजारां बच्चों के बीच योग का पाठ करने में हमें काफी खुशी महसूस हुई इसके लिए मैं विद्यालय के सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूँ।

झांझरा क्षेत्र में योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग की साजिदा खातून ने योग कराया

कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): झांझरा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एपीएम अचिता हलदर, ने प्रशिक्षक का स्वागत करने में टीम झांझरा का नेतृत्व किया और कहा कि आज हमलोग दसवां



अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, योग से हम अपने को स्वस्थ रखने के साथ छोटी बड़ी बीमारियों से भी अपने को बचा सकते हैं, उन्होंने कहा कि महान संत रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हमारी योग प्रशिक्षक साजिदा खातून से हमलोग योग और प्राणायाम की सीख लेकर अपने जीवन में योग का आत्मसात करेंगे, इस अवसर पर योग प्रशिक्षक साजिदा खातून ने सूर्य नमस्कार

प्राणायाम और अन्य प्रमुख आसनों का अभ्यास कराया और स्वस्थ जीवन शैली के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिया, डीजीएम टीके कोले समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया, कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): साजिदा खातून द्वारा योग सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया, इस अवसर पर क्षेत्र के एपीएम अचिता हलदर, ने प्रशिक्षक का स्वागत करने में टीम झांझरा का नेतृत्व किया और कहा कि आज हमलोग दसवां

ईसीएल बंकोला क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बंकोला क्षेत्र के गुलमोहर क्लब में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर धूमधाम से



अवसर पर कहा की आज बहुत खुशी हो रही है की हमलोग दसवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और महान संत रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य और योग के बड़े प्रशिक्षकों की उपस्थिति में हमलोगों को योग का अभ्यास करने का सौभाग्य मिला है, आइए हमलोग इस पुनीत अवसर पर योग का अभ्यास करके अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, दैनिक जीवन को हिस्सा बनाकर स्वस्थ रहे, आर्ट ऑफ लिविंग के सुमित बनर्जी ने भी योग की महिमा का बखान किया, इस अवसर पर क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग का अभ्यास किया, कोलफील्ड मिरर 22 जून (पांडवेश्वर): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बंकोला क्षेत्र के गुलमोहर क्लब में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर धूमधाम से

पश्चिम बंगाल दिवस का पालन

कोलफील्ड मिरर 22 जून (नियामतपुर): आसनसोल लोकसभा के नियामतपुर भाजपा सेंट्रल पार्टी में



कार्यालय में गुरुवार संघा भाजपा कर्मियों ने पश्चिम बंगाल दिवस का पालन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तस्वीर पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। उक्त दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य, कुल्दी विधानसभा के मंडल उपाध्यक्ष सह समाज सेवी टिकु वर्मा, जिला सदस्य महेश सिंह, कुल्दी मंडल 3.4 के उपाध्यक्ष कवि सिंह, काजल दास, मलय घोष, युवा मोर्चा के सदस्य दिवाकर कुमार के साथ अन्य कर्मियों गण उपस्थित थे।

आज का राशिफल

दिन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पुराने दोस्त से मिलेगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

दिन उत्तम रहेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा।

दिन बढ़िया रहेगा. घरवालों के साथ गुड टाईम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सफल होंगे। सभी काम आसानी से होंगे।

मेष

दिन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पुराने दोस्त से मिलेगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

वृषभ

दिन उत्तम रहेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा।

मिथुन

दिन बढ़िया रहेगा. घरवालों के साथ गुड टाईम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सफल होंगे। सभी काम आसानी से होंगे।

कर्क

दिन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पुराने दोस्त से मिलेगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

सिंह

दिन उत्तम रहेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा।

कन्या

दिन बढ़िया रहेगा. घरवालों के साथ गुड टाईम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सफल होंगे। सभी काम आसानी से होंगे।

तुला

दिन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पुराने दोस्त से मिलेगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

वृश्चिक

दिन उत्तम रहेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा।

धनु

दिन बढ़िया रहेगा. घरवालों के साथ गुड टाईम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सफल होंगे। सभी काम आसानी से होंगे।

मकर

दिन बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पुराने दोस्त से मिलेगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

कुंभ

दिन उत्तम रहेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशीप करने का मौका मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा।

मीन

दिन बढ़िया रहेगा. घरवालों के साथ गुड टाईम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में सफल होंगे। सभी काम आसानी से होंगे।

ज्योतिष सम्राट श्री एस के पांडेय

9474017999

प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती हैं ममता बनर्जी

कोलफील्ड मिरर 22 जून (कोलकाता): कांग्रेस और टीएमसी की दूरियां बहुत जल्द मिटने वाली हैं, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वड़ा के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं। दरअसल, राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी यहां से उपचुनाव लड़ेंगी। इस उपचुनाव में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता




और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। हालांकि, यह मीटिंग काफी सीक्रेट रखी गई थी। इस सीक्रेट मीटिंग में पी चिदंबरम ने ममता बनर्जी से प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया, कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के कारण जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो दरारें आई थीं, पी चिदंबरम उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद राज्य की सभी 42 सीटों पर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ी थी। मगर चुनाव के बाद ममता ने कहा कि

इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वह कांग्रेस को बाहर से समर्थन करेंगी, लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं बीजेपी को 12 सीटें मिलीं। अधीर के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यह साफ है। अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमान है, हम जो तय करेंगे, उन्हें

फॉलो करना होगा। खरगे के इस बयान के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है, उसी तरह तुणमूल भी बंगाल को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है, बंगाल के कार्यकर्ताओं के हित में उनकी लड़ाई जारी रहेगी, ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, कोई कांग्रेस को बर्बाद कर देगा और मैं चुप बैठ जाऊंगा? कांग्रेस के सिपाही के रूप में लड़ता रहूंगा।

यूजीसी-नेट की परीक्षा थी या फिर आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने की परीक्षा- सीपीएम



कोलफील्ड मिरर 22 जून (कोलकाता): यूजीसी-नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह परीक्षा रद्द कर दी है और सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है। यूजीसी-नेट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान ने भी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई दी है। इस बीच, माकपा ने यूजीसी-नेट में

पूछे गये सवाल को टूट किया है। सीपीएम का दावा है कि विद्यार्थी विषय की नेट परीक्षा में पूछे गये सवाल में रामायण, महाभारत और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछे गये हैं। सीपीएम ने तंज कसते हुए कहा कि यह यूजीसी-नेट की परीक्षा थी या फिर आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने की परीक्षा थी?

सीपीएम की ओर से सोशल साइड पर सवाल पर टूट किया गया है। इस टूट में विद्यार्थी के छात्रों के लिए पूछे गये सवाल की गयी है। इसमें 57 नंबर सवाल पूछा गया है। सीपीएम ने तंज कसते हुए कहा कि यह यूजीसी-नेट की परीक्षा थी या फिर आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने की परीक्षा थी? उसी तरह से 69 नंबर सवाल में पूछा गया है कि

हिंदुस्तान दर्शन की प्रथान त्रयी में शामिल है? एक अन्य सवाल पूछा गया था कि महाभारत के किस योद्धा का सिर कलम किया गया और उसे कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने के लिए रखा गया था? प्रश्न पर के 87 नंबर सवाल पूछा गया था कि रामचरित मानस के किस कांड में हनुमान प्रकट होते हैं? माकपा ने प्रश्न पर को पोस्ट किया है और इसे लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि नेट की परीक्षा में गड़बड़ी और यूजीसी-नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और अब माकपा ने पूछे गये सवाल को लेकर निशाना साधा है।

दूसरी ओर, माकपा के पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नेट और यूजीसी-नेट परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। येचुरी ने कहा कि वहां व्यवस्था खत्म कर दी गई है, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की। सीताराम येचुरी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सीबीआई ने भरोसा खो दिया है, उनका काम विपक्षी नेताओं के पीछे भागना है, जब भ्रष्टाचार होता है तो उसकी कोई अलग भाषा

नहीं होती, चाहे वो बंगाल में हो या गुजरात में, बहुत से लोग खाली खाते जमा करके बच रहे हैं, शिक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं है, वे शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, इतिहास की जगह, विज्ञान की जगह अंधविश्वास पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने नेशनल टैस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर भी सवाल उठाए, उन्होंने बताया कि नई सरकार को इस मुद्दे पर संसद में सवालों का सामना करना पड़ेगा। सीपीएम के मुताबिक, पिछले सत्र में विपक्षी को चर्चा का कोई मौका नहीं दिया गया, लेकिन इस बार वह स्थिति स्वीकार नहीं होगी।

गोपालीचक को हराकर मेघचातर ने जीता नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला



कोलफील्ड मिरर 22 जून (कृष्णिकान्त मिश्र) पीरपैती: प्रखण्ड के गोपालीचक में आदर्श युवा संघ के द्वारा दो दिवसीय नाइट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका फाइनल मुकाबला गोपालीचक और मेघचातर के बीच खेला गया जिसमें मेघचातर ने गोपालीचक को पेनल्टी शूटआउट में 7-6 से हराकर

खिताब अपने नाम किया। मैच में रेफरी की भूमिका दिलीप, गौरव, गोल कज की भूमिका में अंकित प्रियांशु उज्जवल और राकेश तो उद्घोषक की भूमिका अतुल, जितेंद्र ने निभाई। वहीं पुरस्कार वितरण अरुण कुमार, अंकज कुमार मंडल, रूपेश कुमार, राहुल एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा किया गया।

सिखावत अपने नाम किया। मैच में रेफरी की भूमिका दिलीप, गौरव, गोल कज की भूमिका में अंकित प्रियांशु उज्जवल और राकेश तो उद्घोषक की भूमिका अतुल, जितेंद्र ने निभाई। वहीं पुरस्कार वितरण अरुण कुमार, अंकज कुमार मंडल, रूपेश कुमार, राहुल एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा किया गया।

दान में दिए पैसा का गलत उपयोग होने पर लगने वाले पाप से बचने के लिए धन देने की बजाय रोटी खिला दो, पानी पिला दो

दूसरों को अपना खिला दो, दूसरे का मत खाओ, आप ठगा जाओ लेकिन दूसरे को मत ठगो, अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाए धन-सम्मान को ही अपना समझो



कोलफील्ड मिरर 22 जून (हजारीबाग/झारखंड): साधक भक्त के सुखी रहने, और साधना में तरक्की पाने के सिद्धांत समझाने वाले, पुण्य कर्माने के प्रयास में अनजान में कमाए पाप से बचने का उपाय बताने वाले, सब प्रकार के कर्मों को खत्म करने वाले सच्चे महात्मा, इस समय के पूरे समग्र सन्त सतरंग दुःखहर्ता, उज्जैन वाले बाबा उमाकान्त जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जयपुरदेवयुकेम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि एक रोटी धन, वह बढ़ा हो गया। तो बुद्धा में कौन पूछे? तो दरवाजे पर बैठा रहता था। एक महात्मा जी उधर से जब जाने लगता तो मुंह उधर कर (फेर) लेता कि ये हमसे कहीं कुछ मांग न ले। कंजूस था। मितव्यई वो जो कम खर्चीला होता है। जरूरत भरी का खर्चा करता है और जहां जरूरत होती है, वहां खर्च करने में कोई कमी नहीं रहता है। और एक होते हैं कंजूस जो जो हर जगह पर कम खर्चा करते हैं। चाहे काम बिगड़ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन दाम जब से न निकले। और एक होता है मक्खीपुस, चाहे कपड़ी जाये, कोई जूता मार दे लेकिन दाम हमको मिल जाए। इसके आगे महाराज जी ने अपने सतसंग में उस कंजूस से बातें कही

से समझाया कि केवल दुनिया को खाना चाहिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण का भी अपना असला काम जीते जी कर लो।

समझने की जरूरत है। गुरु महाराज कभी-कभी कहा करते थे, तुम्हारी दी हुई एक रोटी खाता हूँ तो उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, अदा कर देता हूँ। तुम्हारे लिए कर देता हूँ।

मूर्ति के सामने चढ़ा दो। वह पाप बना कि नहीं बना? आगे (पहले से ही) तो एक भूल लगा हुआ था, परेशान कर रहा था और (अब अकाल मृत्यु में गए बकरे का) दूसरा भूल और (ऊपर) सवार हो गया। कोई अपसे कह रहा है कि बहुत भक्त के सुखी रहने, और साधना में तरक्की पाने के सिद्धांत समझाने वाले, पुण्य कर्माने के प्रयास में अनजान में कमाए पाप से बचने का उपाय बताने वाले, सब प्रकार के कर्मों को खत्म करने वाले सच्चे महात्मा, इस समय के पूरे समग्र सन्त सतरंग दुःखहर्ता, उज्जैन वाले बाबा उमाकान्त जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जयपुरदेवयुकेम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि एक रोटी धन, वह बढ़ा हो गया। तो बुद्धा में कौन पूछे? तो दरवाजे पर बैठा रहता था। एक महात्मा जी उधर से जब जाने लगता तो मुंह उधर कर (फेर) लेता कि ये हमसे कहीं कुछ मांग न ले। कंजूस था। मितव्यई वो जो कम खर्चीला होता है। जरूरत भरी का खर्चा करता है और जहां जरूरत होती है, वहां खर्च करने में कोई कमी नहीं रहता है। और एक होते हैं कंजूस जो जो हर जगह पर कम खर्चा करते हैं। चाहे काम बिगड़ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन दाम जब से न निकले। और एक होता है मक्खीपुस, चाहे कपड़ी जाये, कोई जूता मार दे लेकिन दाम हमको मिल जाए। इसके आगे महाराज जी ने अपने सतसंग में उस कंजूस से बातें कही

10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों लोगों ने किया योग



कोलफील्ड मिरर 22 जून (कृष्णिकान्त मिश्र) पीरपैती: 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पर बाराहाट स्थित गैंगार स्कूल के प्राण में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी और भारत स्काउट और गाइड के संयुक्त

नेतृत्व में सैकड़ों योग प्रेमियों ने शारीरिक मानसिक योग कर आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दुमका से आई बीके रेखा दीदी, बीके मोसमी दीदी, बीके लीला दीदी, जगू चनानी, चिकित्सा

पदाधिकारी डॉ० सहैम इकबाल, स्काउट जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, योग शिक्षक संजय पोद्दार व अन्य योग शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। दुमका से आई बीके रेखा दीदी

के द्वारा भावना देवी, कल्पना देवी, रीना देवी, संजय पोद्दार, विश्वनाथ गोस्वामी, पवन तांती, मुकेश आजाद, ललित गुप्ता, दिनेश मंडल, उमाशंकर राणा, डॉ० योगेश कोशल, मिनी, जूही, डेजी और डॉ० सहैम इकबाल व क्षेत्रीय योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी ने सभी योग कर रहे लोगों को योग पुस्तक देकर सम्मानित किया और तंबाकू सेवन नहीं करने के लिए शपथ दिलाई।

चिड़ावा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया



कोलफील्ड मिरर 22 जून (चिड़ावा): अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बागर स्थित सेंट विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मैदान में योग दिवस मनाया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संघ चालक, शिक्षाविद अनिल गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री राजेश दहिया व विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार गुप्ता, भाजपा के नगरध्यक्ष बाबुलाल वर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी केडया चंद कविया, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका स्वाति गुप्ता, विद्यालय के प्रबंध निदेशक प्रणय गुप्ता,

सीडीईओ अनुसुइया व विकास अधिकारी प्रहलाद डामरे थे। अतिथियों ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में योगाचार्य जमनालाल सेनी व रेखा शर्मा ने योगाभ्यास करवाया। संचालन डॉ. अशोक कुमार अरडरावतिया ने किया। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष केडया चंद्र लाटा, निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष रणवीर थालोर, संदीप गुप्ता, शालिनी गुप्ता, कुसुम सुरजगुडिया, डॉ. गणेश चैतीवाल, मुन्नी कोठारी, आरएसएस के प्रभु दयाल वर्मा, रामजीलाल सेनी, पार्षद गंगाधर सेनी, पूर्व पार्षद विद्याधर सेनी, राजेश, सुशील डाबला सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन और मातृशक्ति उपस्थित रही।

कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष केडया चंद्र लाटा, निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष रणवीर थालोर, संदीप गुप्ता, शालिनी गुप्ता, कुसुम सुरजगुडिया, डॉ. गणेश चैतीवाल, मुन्नी कोठारी, आरएसएस के प्रभु दयाल वर्मा, रामजीलाल सेनी, पार्षद गंगाधर सेनी, पूर्व पार्षद विद्याधर सेनी, राजेश, सुशील डाबला सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन और मातृशक्ति उपस्थित रही।

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया



कोलफील्ड मिरर 22 जून (आसनसोल): पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में अंतरराष्ट्रीय

योग दिवस मनाया, जिसका थीम "स्वयं और समाज के लिए योग" था। यह आयोजन


आसनसोल मंडल में 12 (बारह) स्थानों पर- अधिकारी क्लब, विवेकानंद इंस्टिट्यूट, मंडल रेल अस्पताल, चित्तरंजन इंस्टिट्यूट अंडाल, टैगोर इंस्टिट्यूट सीतारामपुर और लाल बहादुर शास्त्री इंस्टिट्यूट मधुपुर सहित अन्य छह (06) स्थानों पर हुआ। इस आयोजन में चेतना नंदा सिंह, मंडल रेल प्रबंधक, अन्य शाखा अधिकारीगण तथा कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में योग से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला गया। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम "स्वयं और समाज के लिए योग" व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को रेखांकित करता है। योग हमें कई तरह से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें बेहतर लचीलापन, तनाव में कमी, मानसिक स्पष्टता में वृद्धि और समग्र शारीरिक फिटनेस शामिल है। समग्र

पृथ्वी के फेफड़े हैं वर्षावन

विश्व वर्षावन दिवस पर विशेष कोलफील्ड मिरर 22 जून: 22 जून को हर साल विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। ये सबसे पहले 22 जून 2017 को रेनफॉरेस्ट पार्टनरशिप नमक समूहों के सहयोग से मनाया गया था। हर बार यह अलग थीम पर मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है- द टाइम इस नाउ। विश्व वर्षावन दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों को वर्षावन से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना और वर्षा वनों को संरक्षित बनाना। वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की ऑक्सीजन की जरूरत का 28 प्रतिशत इन्हीं से मिलता है। यह वर्षा वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जो की अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेज़ॉन है। यह वर्षा वन पृथ्वी के केंद्रीय तापिका तंत्र हैं क्योंकि इन वर्षा वनों में जीवों की लाखों प्रजातियों का जन्म, पोषण और विकास होता है। हमारे देश में वर्षा वन पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से तमिलनाडु के तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह हैं। यह वर्षा वन ताजे पानी और स्वच्छ हवा का मुख्य स्रोत हैं। यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बेहतर करने का काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार हर मिन्ट 40 फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर वर्षा वनों को नुकसान होता है। अगर इसी तरह वनों की कटाई होती रही तो 2050 तक जीवों की 28000 प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। विश्व वर्षा वन दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व की सरकारों और शासन व्यवस्था को इस बात से अवगत कराना है कि यह वर्षा वन हमारे लिए कितने जरूरी हैं।

द्वीप समूह हैं। यह वर्षा वन ताजे पानी और स्वच्छ हवा का मुख्य स्रोत हैं। यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और हमारे इकोसिस्टम को बेहतर करने का काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार हर मिन्ट 40 फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर वर्षा वनों को नुकसान होता है। अगर इसी तरह वनों की कटाई होती रही तो 2050 तक जीवों की 28000 प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। विश्व वर्षा वन दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व की सरकारों और शासन व्यवस्था को इस बात से अवगत कराना है कि यह वर्षा वन हमारे लिए कितने जरूरी हैं।

लक्ष्मी दीक्षित, प्रकाश वासिधर मध्यप्रदेश



आदर्श मध्य विद्यालय, तिनटंगा दियारा में मना विश्व योग दिवस

कोलफील्ड मिरर 22 जून (प्रतिनिधि) रंगराचोक:- आदर्श मध्य विद्यालय, तिनटंगा दियारा में प्रधानाध्यापक नितेश कुमार की अध्यक्षता व वरीय शिक्षक राजेश कुमार के निदेशन में विश्व योग दिवस सफलतापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर चेतना सत्र में विभिन्न योगासनों को बच्चों और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सामूहिक रूप से किया। वरिष्ठ शिक्षक जयप्रकाश सिन्हा ने इस अवसर पर योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "योग भाग्य रोग"। वहीं सीनियर टीचर पुष्कर कुमार ने कहा कि भारत की योगविद्या को अब पूरा विश्व अपनाकर गंभीर बीमारियों से मुक्ति प रहा है। वीपीएससी टीचर अरु कुमारी ने कहा कि अब महिलाएं भी बढ़-चढ़कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रही हैं। डाक्टर भागलपुर के डॉ. 730 सह दिनांक- 14.06.2024 के आलोक में दीक्षा इम्पारमेंट क्लेटफॉर्म पर कोर्स निर्माण हेतु आयोजित कार्यशाला के निमित्त रंगराचोक के अधिवक्ता खिला मास्टर ट्रेनर शिवाथ रविदास उर्फ चहकनाथ भागलपुरी ने विश्व योग दिवस का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए कहा कि महर्षि

कोलफील्ड मिरर 22 जून (प्रतिनिधि) रंगराचोक:- आदर्श मध्य विद्यालय, तिनटंगा दियारा में प्रधानाध्यापक नितेश कुमार की अध्यक्षता व वरीय शिक्षक राजेश कुमार के निदेशन में विश्व योग दिवस सफलतापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर चेतना सत्र में विभिन्न योगासनों को बच्चों और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सामूहिक रूप से किया। वरिष्ठ शिक्षक जयप्रकाश सिन्हा ने इस अवसर पर योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "योग भाग्य रोग"। वहीं सीनियर टीचर पुष्कर कुमार ने कहा कि भारत की योगविद्या को अब पूरा विश्व अपनाकर गंभीर बीमारियों से मुक्ति प रहा है। वीपीएससी टीचर अरु कुमारी ने कहा कि अब महिलाएं भी बढ़-चढ़कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रही हैं। डाक्टर भागलपुर के डॉ. 730 सह दिनांक- 14.06.2024 के आलोक में दीक्षा इम्पारमेंट क्लेटफॉर्म पर कोर्स निर्माण हेतु आयोजित कार्यशाला के निमित्त रंगराचोक के अधिवक्ता खिला मास्टर ट्रेनर शिवाथ रविदास उर्फ चहकनाथ भागलपुरी ने विश्व योग दिवस का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए कहा कि महर्षि

पतंजलि ने योग को आठ भागों में विभक्त किया था, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, इसकी व्यापक चर्चा पतंजलि योग दर्शन नामक ग्रंथ में है। मौके पर उपस्थित सभी सहईया दीदी-भैया, बालसंसद, मीमांसा और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी मंत्रीगण और सदस्यगण सहित सभी छात्र-छात्राओं ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।



